



एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड

(हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी)

HPCL BIOFUELS LIMITED

(A wholly owned subsidiary company of Hindustan Petroleum Corporation Ltd.)

पंजीकृत कार्यालय : प्रथम मंजिल, श्री सदन, प्लॉट नं. 09, पाटलीपुत्र कॉलोनी, पटना-800013, बिहार
Regd. Office : 1st Floor, Shree Sadan, Plot No.09, Patliputra Colony, Patna-800013, Bihar
दुरभाष / Telephone : 0612 - 2260185 / 2270483, Website : www.hpclbiofuels.co.in, CIN - U24290BR2009GOI014927

CORRIGENDUM-6

To

TENDER DOCUMENT

FOR

Tender Title: OPEN TENDER ENQUIRY FOR CONVERSION OF EXISITING 60 KLPD MOLASSES JUICE DISTILLERY TO DUAL MODE AND EXPANSION TO 70 KLPD ALONG WITH NEW COGEN PLANT AT LAURIYA PLANT OF HPCL BIOFUELS LIMITED.

Tender ID: 2023_HPCLB_146261_1

Tender No: HBL/TEN/PUB/22-23/310, Dt. 21.02.2023

Sr. No.	Chapter No.	Page No.	Reference Clause No.	Subject	Clarification/ Amendment
1	Volume-1	1.125	1.1	APPENDIX – II	<p>Existing requirement:</p> <p>Ten percent (10%) of the basic cost as advance will be paid within thirty (30) days of order, against submission of an Advance Bank Guarantee as per PURCHASER’s format, valid for the entire contract period. This advance amount will be recovered from the first RA bill. If the value of the first RA bill is less than the advance amount, it will be recovered from the subsequent bills till its full recovery.</p> <p>Modified requirement:</p> <p>Ten percent (10%) of the basic PO value as advance will be paid within thirty (30) days of order, against submission of an Advance Bank Guarantee as per PURCHASER’s format, valid for the entire contract period. This advance amount will be recovered from the first RA bill. If the value of the first RA bill is less than the advance amount, it will be recovered from the subsequent bills till its full recovery. ABG shall be returned after successful commissioning of last equipment subject to submission of PBG.</p>
2	Volume-1	1.125	1.2	APPENDIX – II	<p>Existing requirement:</p> <p>In addition, SUPPLIER shall provide a Performance Bank Guarantee for twenty (20) percent of the basic cost as Contract Performance Security and shall be valid for the valid for the entire contract period plus two (2) year defect liability period.</p> <p>Modified requirement:</p> <p>SUPPLIER shall provide a Performance Bank Guarantee for ten (10) percent of the basic PO value as Contract Performance Security and shall be valid for the valid for one (1) year from the date of commissioning of last equipment. This PBG shall be submitted for return of ABG.</p>

The terms, conditions and specifications of the bid document are modified to the extent specified under the column "Clarification/Amendment". All other terms and conditions, conditions, specifications etc. of the bid document issued earlier shall remain unchanged.

Bidders are advised to regularly visit the e-tender portal <https://etenders.gov.in> for further information/updates. Bidder must ensure that the bid is submitted and uploaded as per above & other published addendum's / corrigenda.